



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 18 जुलाई 2022

थाना डिबाई

वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही पर चोरी की 04 मोटरसाईकिल आदि बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.07.2022 को थाना डिबाई पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर दो शातिर मोटरसाईकिल चोरों को धर्मपुर चौराहे के पास से चोरी की स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशांदाही पर चोरी की 03 अन्य मोटरसाईकिलों को धर्मपुर रोड से नंगला रुध को जाने वाले रास्ते पर स्थित ईदगाह के पीछे खंडहर के पास झाड़ियों से बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अजय कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम लोहगढ थाना अतरौली जनपद अलीगढ।
- 2- राहुल पुत्र नेत्रपाल निवासी नऊरी थाना अतरौली जनपद अलीगढ

बरामदगी-

1. मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस० नं० UP-14CN-2367(फर्जी नम्बर) असली नं०-DL-5SAD-1949
2. मोटरसाईकिल पेशन बिना नम्बर
3. मोटरसाईकिल पेशन एक्स प्रो नं० DL-7SBW-5534 बिना नम्बर
4. मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर बिना नम्बर
5. चाबी का गुच्छा
6. एक पेंचकस

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बरामद मोटरसाईकिलों को सीलमपुर, मुस्तफाबाद दिल्ली से चोरी करना बताया हैं। अभियुक्तों द्वारा बरामद चाबियों एवं पैचकस की मदद से मोटरसाईकिलों का लॉक खोलकर अलग-अलग स्थानों से मोटरसाईकिल चोरी कर उनकी पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट बदलकर आसपास क्षेत्रों में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति की गयी हैं। बरामद मोटरसाईकिलों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त अजय थाना डिबाई पर पंजीकृत मु०अ०सं०-510/20 धारा 411 भादिव व मु०अ०सं० 709/21 धारा 420/413/414 में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० विक्रम सिंह
3. का० अमित कुमार, का० योगेन्द्र सिंह, का० सचिन कुमार, का०चालक संदीप कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर